



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 12, 2003 (आषाढ़ 21, 1925)
No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 12, 2003 (ASADHA 21, 1925)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 774	भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	पृष्ठ 915
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारों अधिकारियों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	529	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	1	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	915
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारों अधिकारियों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	865	भाग III—खण्ड 2—उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई नोटों और डिमाण्डों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोट्स	2515
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड 3—मुख्य प्राधिकरणों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग II—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक नियमों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	7681
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—नोटिस—नोटिसों के विषयों में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	225
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां शामिल हैं)	*	भाग V—नोटिस—नोटिसों के विषयों में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	225
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

*आकड़े प्राप्त नहीं हुए

CONTENTS

PAGE	PAGE
PART I—SECTION 1—Notificatinns relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. 747	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .. *
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. 529	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .. *
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .. 1	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India. .. 915
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .. 865	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .. 2515
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .. *	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners .. *
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations .. *	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. 7681
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .. *	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private individuals and Private Bodies .. 225
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .. *	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories). .. *	

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 2003

सं० 99-प्रेज/2003—सेना मेडल प्रदान किए जाने के बारे में 07 अक्टूबर, 1995 के भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित 15 अगस्त, 1995 की सचिवालय अधिसूचना सं० 183-प्रेज/95 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

क्रम सं० 68 पर

2986035 सिपाही झाड़ड़ी मल राजपूत—के स्थान पर 2986035 सिपाही झाड़ड़ी मल गुर्जर, 1 राष्ट्रीय राइफल पद है।

वरुण मित्रा, निदेशक

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 2003

आदेश

सं० ओ-12012/04/2003/ओएनजी/डी-4—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) (जिन्हें इसके बाद अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) को 520.0 वर्ग कि०मी० माप के एसएम-86 ए में 1 फरवरी, 2003 से 31 जनवरी, 2007 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वक्षण करने के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करती है और यह निर्देशांकों द्वारा आवद्ध होगी।

2. पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना अनुज्ञप्तिधारी को अलग से सूचित किए जा रहे निबंधनों और शर्तों के अधीन है।

एन० सी० जाखुप, अवर सचिव

आदेश

सं० ओ-12012/46/2003/ओएनजी/डी-4—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) (जिन्हें इसके बाद अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) को 318.0 वर्ग कि०मी० माप के कच्छ-एच I और II

ब्लाक में 27 जून, 2000 से 28 जून 2004 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वक्षण करने के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करती है और यह निर्देशांकों द्वारा आवद्ध होगी।

2. पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना अनुज्ञप्तिधारी को अलग से सूचित किए जा रहे निबंधनों और शर्तों के अधीन है।

एन० सी० जाखुप, अवर सचिव

आदेश

सं० ओ-12012/48/2003/ओएनजी/डी-4—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) (जिन्हें इसके बाद अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) को 160.0 वर्ग कि०मी० माप के बी-192ए में 12 मई, 2001 से 11 मई, 2005 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वक्षण करने के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करती है और यह निर्देशांकों द्वारा आवद्ध होगी।

2. पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना अनुज्ञप्तिधारी को अलग से सूचित किए जा रहे निबंधनों और शर्तों के अधीन है।

एन० सी० जाखुप, अवर सचिव

आदेश

सं० ओ-12012/62/2003/ओएनजी/डी-4—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) (जिन्हें इसके बाद अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) को 239.0 वर्ग कि०मी० माप के के ब्लाक में 25 अप्रैल, 2000 से 24 अप्रैल, 2004 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वक्षण करने के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करती है और यह निर्देशांकों द्वारा आवद्ध होगी।

2. पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना अनुज्ञप्तिधारी को अलग से सूचित किए जा रहे निबंधनों और शर्तों के अधीन है।

एन० सी० जाखुप, अवर सचिव

विनिवेश मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 जून 2003

संकल्प

सं० 48011/1/2001-प्रशा—भारत सरकार द्वारा विनिवेश आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के साथ-साथ विनिवेश आयोग का कार्यकाल दिनांक 24 जुलाई, 2001 के संकल्प में यथा-सन्निहित मौजूरा विचारार्थ विषय पर दिनांक 31-10-2004 तक एतद् द्वारा बढ़ाया जाता है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संप्रेषित की जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पी०बी० भिडे
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 1st July 2003

No. 99-Press/2003.—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 183-Pres/95 dated 15 August 1995 published in Part-I Section-I of the Gazette of India dated 07 Oct 1995 relating to the award of Sena Medal :—

At Serial Number 68

For

2986035 Sepoy Jhawri Mal, Rajput

Read

2986035 Sepoy Jhaunrimal Gurjar, 1 Rashtriya Rifles

BARUN MITRA
Director

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 25th June 2003

ORDER

No. O-12012/04/2003/ONG/D-IV.—In exercise of powers conferred by clause (1) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to Oil and Natural Gas Corporation Ltd. (ONGC) (hereinafter referred to as Licensees) a Petroleum Exploration Licence to prospect for a period of 4 years with effect from 1st February, 2003 to 31st January, 2007 in SM-86-A measuring 520.0 sq. kms and bound by the co-ordinates.

2. The grant of Petroleum Exploration Licence is subject to the terms and conditions being intimated to the Licensee separately.

N. C. ZAKHUP, Under Secy.

ORDER

No. O-12012/46/2003/ONG/D-IV.—In exercise of powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to Oil and Natural Gas Corporation Ltd. (ONGC) (hereinafter referred to as Licensees) a Petroleum Exploration Licence to prospect for a period of 4 years with effect from 27th June, 2002 to 26th June, 2004 in Kutch-H Block I&II measuring 318.0 sq. kms and bound by the co-ordinates.

2. The grant of Petroleum Exploration Licence is subject to the terms and conditions being intimated to the Licensee separately.

N. C. ZAKHUP, Under Secy.

ORDER

No. O-12012/48/2003/ONG/D-IV.—In exercise of powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to Oil and Natural Gas Corporation Ltd. (ONGC) (hereinafter referred to as Licensees) a Petroleum Exploration Licence to prospect for a period of 4 years with effect from 12th May, 2001 to 11th May, 2005 in B-192A measuring 1600 sq. kms and bound by the co-ordinates.

2. The grant of Petroleum Exploration Licence is subject to the terms and conditions being intimated to the Licensee separately.

N. C. ZAKHUP, Under Secy.

ORDER

No. O-12012/62/2003/ONG/D-IV.—In exercise of powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to Oil and Natural Gas Corporation Ltd. (ONGC) (hereinafter referred to as Licensees) a Petroleum Exploration Licence to prospect for a period of 4 years with effect from 25th April, 2000 to 24th April, 2004 in KK Block measuring 239.0 sq. kms and bound by the co-ordinates.

2. The grant of Petroleum Exploration Licence is subject to the terms and conditions being intimated to the Licensee separately.

N. C. ZAKHUP, Under Secy.

MINISTRY OF DISINVESTMENT

New Delhi-110003, the 26th June 2003

RESOLUTION

No. 48011/1/2001-Admn.—The Government of India hereby extends the term of the Disinvestment Commission, including that of the Chairman and Members of the Commission on the existing terms of reference as contained in Resolution dated 24th July, 2001, till the 31st October, 2004.

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India and all Central Public Sector Undertakings. Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India.

P. V. BHIDE, Jr. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, फरीदाबाद द्वारा मद्रित

एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित. 2003

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003